



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 24, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-2

संख्या 839/9-2-2020-09 सीमा विस्तार-2016

लखनऊ, 15 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-429

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1916), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पालिका परिषद मुरादनगर, जिला गाजियाबाद के लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित को सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हो, प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ को लिखित में सम्बोधित करके प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची-1 में उल्लिखित क्षेत्र संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनों के लिये नगर पालिका परिषद मुरादनगर, जिला गाजियाबाद के लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जायेंगे और अग्रतर यह अधिसूचित करती

है कि नीचे अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उक्त नगर पालिका परिषद, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची-1

नगर पालिका परिषद मुरादनगर, जिला गाजियाबाद के लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र :-

क्रम-संख्या	ग्राम पंचायत का नाम/क्षेत्रफल हेक्टेयर में	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम	कुल गाटा संख्या	विवरण
1	ग्राम अबुपुर (आंशिक)	ग्राम अबुपुर	80, 92, 98, 76, 82, 124/868, 83, 93, 78, 79, 99 से 143 तक सम्पूर्ण मौजा कुल गाटा सं०-55 कुल क्षेत्रफल-52.667 हे०,	उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है।
2	ग्राम सरना (आंशिक)	ग्राम सरना	01 से 116 तक, 123, 124, 145 से 195 तक, 206, 208 से 246 तक, 266 से 272 तक, 280 से 292 तक, 294 से 298 तक, 446 से 476 तक, 839 से 861 तक, 864 से 870 तक, 872 से 885 तक, 887, 888, 890 से 908 तक, 910, 915, 921 से 930 तक, 1066 से 1077 तक, 1085 से 1095 तक, 1101 से 1105 तक, 1422 से 1429 तक, 1431 से 1433 तक, 1435 से 1453 तक, 1455 से 1459 तक, 1533 से 1562 तक सम्पूर्ण मौजा कुल गाटा सं०-435 कुल क्षेत्रफल-175.587 हे०,	उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है।
3	ग्राम सहबिस्वा	ग्राम सहबिस्वा	01 से 40 तक, 42, 41/1, 41/2, 42, 43, 44मि०, 45 से 78 तक, 78/1, 79 से 210 तक, 211/1, 211/2, 212 से 216 तक कुल गाटा सं०-216 कुल क्षेत्रफल-84.023 हे०,	पश्चिम दक्षिण दिशा में स्थित है।
4	ग्राम जलालपुर, रघुनाथपुर	ग्राम जलालपुर, रघुनाथपुर	01 से 09 तक, 10-1, 10-2, 11 से 37 तक, 38-1, 38-2, 39 से 69 तक, 70-1, 71 से 109 तक, 110/1, 111 से 156 तक, 157-1, 157-2, 158 से 222 तक, 223-1मि०, 223-2मि०, 224 से 262 तक, 263-1, 263-2, 264 से 280 तक, 285 से 296 तक, 297मि०, 297मि०, 298 से 323 तक, 324मि०, 325 से 346 तक, सम्पूर्ण मौजा कुल गाटा सं०-346 कुल क्षेत्रफल-136.636 हे०,	पश्चिम दक्षिण दिशा में स्थित है।

क्रम-संख्या	ग्राम पंचायत का नाम/क्षेत्रफल हेक्टेयर में	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम	कुल गाटा संख्या	विवरण
5	ग्राम असालतनगर	ग्राम असालतनगर	01 से 03 तक, 05 से 25 तक, 26/1, 27 से 48 तक, 49-क, 49-ख, 49-ग, 50-ग, 51 से 71 तक, 72/1, 73/1, 73/2, 74, 75, 76मि०, 77 से 83 तक, 85 से 105 तक, 106/2, 107 से 121 तक, 122-122मि०, 123 से 131 तक, 133 से 138 तक, 139क, 139ख 140 से 143 तक, 144/1, 144/2, 145 से 169 तक, 171 से 194 तक, 195कख, 196 से 203 तक, 204कख, 205 से 214 तक, 216 से 237 तक, 238/1, 238/2, 239 से 247 तक, 248क, 248ख 249, 250 से 256 तक, 258क प, 258ख, 259, 260क, 260ख, 261 से 265 तक, 266क ख, 267क ख, 268 से 271 तक, 272/1, 272/2, 272/3, 273 से 280 तक, 281कखग, 282, 283, 284, 285, 286क, 286ख, 286ग, 286घ, 286ड, 286घ, 287 से 292 तक, 294 क, 295 से 314 तक, 315क, 315ख, 316 से 344 तक, 137/345, 95/346क, 95/346ख, 95/346ग, 89/348, 190/349, 901/350, 95/351 सम्पूर्ण मौजा कुल गाटा सं०-364 कुल क्षेत्रफल-220.4369 हे०,	दक्षिण दिशा में स्थित है
6	ग्राम मौहम्मदपुर धेदा	ग्राम मौहम्मदपुर धेदा	35/1, 36, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42/23, 43, 44, 45, 46/2, 47 से 52 तक, 68, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102मि०, 103, 126, 128, 129, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 सम्पूर्ण मौजा कुल गाटा सं०-57 कुल क्षेत्रफल-13.151 हे०	दक्षिण दिशा में स्थित है

अनुसूची-2

अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के पश्चात नगर पालिका परिषद, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद के प्रादेशिक क्षेत्र :-

प्रस्तावित क्षेत्र-

1-ग्राम अबुपुर (आंशिक) की गाटा सं०-80, 92, 98, 76, 82, 124/868, 83, 93, 78, 79, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

कुल गाटा सं०-55

कुल रकबा सं०-52.667 Hect.

2-ग्राम सरना (आंशिक) मुरादनगर की गाटा सं०-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 915, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 1066, 1067, 1068, 1069, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1431, 1432, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562

कुल गाटा सं०-435

कुल रकबा सं०-175.587 Hect.

3-ग्राम सहबिस्वा की गाटा सं०-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 41/1, 41/2, 42, 43, 44मि०, 44मि०, 44मि०, 44मि०, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78/1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216

कुल गाटा सं०-216

कुल रकबा सं०-84.023 Hect.

4-ग्राम जलालपुर रघुनाथपुर की गाटा सं०-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-1, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38-1, 38-2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70-1, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157-1, 157-2, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,

223-1मि०, 223-2मि०, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263-1, 263-2, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297मि०, 297मि०, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324मि०, 324मि०, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346

कुल गाटा सं०—346

कुल रकबा सं०—136.636 Hect.

5—ग्राम असालतनगर की गाटा सं०—1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49-क, 49-ख, 49-ग, 50-ग, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 73/1, 73/2, 74, 75, 76मि०, 76मि०, पश्चि०, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122-122मि०, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139क, 139ख, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195कख, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204कख, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248क, 248ख, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258क प, 258ख, 259, 260क, 260ख, 261, 262, 263, 264, 265, 266क ख, 267क ख, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 272/3, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281कखग, 282, 283, 284, 285, 286क, 286ख, 286ग, 286घ, 286ङ, 286च, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294 क, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315क, 315ख, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 137/345, 95/346क, 95/346ख, 95/346ग, 89/348, 190/349, 901/350, 95/351

कुल गाटा सं०—364

कुल रकबा सं०—220.4369 Hect.

6—ग्राम मौहम्मदपुर धेदा की गाटा सं०—35/1, 36, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42/23, 43, 44, 45, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 68, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102मि०, 103, 126, 128, 129, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160

कुल गाटा सं०—57

कुल रकबा सं०—13.151

नगर पालिका परिषद मुरादनगर जिला गाजियाबाद की विस्तारित सीमायें

नगर पालिका परिषद मुरादनगर में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र पूरब में ग्राम सरना मुरादनगर के खसरा नं० 538, 533, 535, 527, 471, 468, को लेते हुए ग्राम अबुपुर खसरा नं०—17 को लेते हुए गंगनहर के सहारे उत्तर से पश्चिम दिशा को चलते हुए 18, 20, 21, 28, 29, 44, 84/887, 84, 86, 87, 89, 93, 95, 117, 118, 119, 127, 128, 129, 137, 138, 139, 141, 146, ग्राम सरना मुरादनगर को लेते हुए भगीरथी जलसमूर्ति योजना के हैड रेग्युलेटर को लेते हुए शहजादपुर की सीमा के सहारे चलते हुए ग्राम सरना व शहजादपुर की सीमा से चकरोड के सहारे चलते हुए पश्चिम दिशा के खसरा नं०—18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 840/1912, 840, 841, 845, 844, 848, 849, 850, 851, 857, 855, 853, 852, 1072, 1073, 1074, 1088, 1089, 1094, 1095, 1414, 1415, 1416, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1478, 1479, के लेते हुए काकडा वाला रास्ता पार करते हुए सरना और अजबपुर मंगावली की सीमा के सहारे चलते हुए रावली रोड (बागपत रोड) को पार करते हुए ग्राम हुसैनपुर आदि को जाने वाले रास्ते को पार करते हुए जलालपुर रघुनाथपुर की सीमा को मिलते हुए गन्दा नाला पार करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए ग्राम सहबिस्वा के पश्चिम दिशा के खसरा नं० लेते हुए 21, 22, 23, 24, 37, 38, 40, 60, 69, 70, 71, 72, 136, 195 को लेते हुए ग्राम जलालपुर की पश्चिम दिशा के खसरा नं० 1, 2, 57, 56, 59, 61, 62, 85, 91, 98, 99 को लेते हुए ग्राम जलालपुर, रघुनाथपुर व शोभापुर की सीमा के सहारे चलते हुए पश्चिम दिशा ग्राम असालतनगर के खसरा नं० 4, 52, 53, 60, 59, 65, 69, 70, 72, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 179, 185, 186, 187, 211, 252, 215 लेते हुए कौशल्या मार्इनर को पार करते हुए बसन्तपुर सैतली के रास्ते के सहारे चलते हुए दक्षिण दिशा से पूरब दिशा की

ओर चलते हुए रोड सं०-58 नेशनल हाईवे को पार करते हुए रेलवे लाईन के सहारे पूरब दिशा के असालतनगर के खसरा नं० 278, 279, 280, 289, 291, 351, 304, 305, 312, 313, 324, 325, 342, 343, 344, लेते हुए रेलवे लाईन के सहारे चलते हुए ऑर्डिनेन्स फैंक्ट्री रोड पार करते हुए पूरब दिशा में ही ग्राम मौहम्मदपुर धेदा के खसरा नं० 142, 143, 154, 155, 159, 160 लेते हुए रेलवे लाईन के सहारे चलते रेलवे स्टेशन मुरादनगर उझौड़ा मार्गनर को पार करते हुए रेलवे लाईन के सहारे चलते हुए पुराना रास्ता उखलारसी को पार करते हुए रेलवे लाईन के सहारे चलते गंगनहर के लोहे के पुल से पश्चिम-उत्तर दिशा को चलते हुए एन०एच-58 को पार करते हुए सीमा बिन्दु ग्राम अबुपुर तक सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र की सीमा के अन्दर आने वाले खसरा नं० जो दर्शाये गये हैं, के बीच का भाग नगर पालिका परिषद मुरादनगर की सीमा में सम्मिलित किया जाना जनहित में है क्योंकि इस भाग में शहरीकरण के प्रवृत्ति लक्षण उत्पन्न हो गये हैं।

सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषद, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद की दिशावार सीमा विस्तार की गाटा संख्याएं –

पूर्व—ग्राम अबुपुर की आंशिक सीमाओं की गाटा संख्याएं—95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 102, 104, 118, 116, 126, 127, 130, 135, 136, 140, 139, 142, 141

पश्चिम—ग्राम सरना (आंशिक) मुरादनगर की सीमाओं की गाटा संख्याएं—261, 269, 268, 100, 104, 105, 69, 36, 37, 35, 34, 38, 10, 11, 12, 22, 28, 24, 25, 26, 27, 146, 145, 142, 143, 840, 841, 844, 845, 846, 847, 848, 868, 860, 861, 859, 854, 853, 852, 851, 850, 549, 880, 862, 1018, 1019, 1496, 1495, 1494, 1452, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492

उत्तर—ग्राम जलालपुर रघुनाथपुर की सीमाओं की गाटा संख्याएं—161, 162, 213, 212, 215, 214, 252, 260, 261, 262, 285, 286, 288, 310, 311, 312, 313

दक्षिण—ग्राम सहबिस्वा, ग्राम असालतनगर व ग्राम मौहम्मदपुर धेदा(आंशिक) की सीमाओं की गाटा संख्याएं—141, 142, 143, 1, 2, 4, 52, 53, 54, 60, 61, 65, 68, 70, 72, 160, 167, 171, 172, 173, 174, 185, 186, 187, 211, 212, 215, 217, 210, 211, 228, 330, 314, 335, 336, 344, 343, 324, 312, 313, 305, 304, 291/351, 291, 250, 256, 279, 278, 160, 159, 154, 155, 152, 153

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 839/IX-2-2020- 09 Seema Vistar-2016, dated December 15, 2020 for general information.

No. 839/IX-2-2020-09 Seema Vistar-2016

Dated Lucknow, December 15, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) hereinafter referred to as the said act for including the areas specified in Schedule-1 below in the smaller urban area of Municipal Council Muradnagar, district Ghaziabad is hereby published for information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect there of as required under sub- section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections and suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Principal Secretary, Nagar Vikas Anubhag-2, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow. Only those objections and suggestions which are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette* shall be taken into consideration.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), the

Governor is pleased to specify that the area mentioned in Schedule-I below shall be included in the smaller urban area of Municipal council Muradnagar, District Ghaziabad for the purposes of Part IX A of the Constitution and is further pleased to notify under clause (d) of Article 243-P of the Constitution that the area specified in Schedule II below shall be the territorial area of the said Municipal Council Muradnagar, District Ghaziabad with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

SCHEDULE-1

Area being included in the smaller urban area of Municipal Council, Muradnagar District Ghaziabad :-

Sl. No	Name of Gram Panchayat/Area in Hectare	Revenue village covered in Gram Panchayat	Total Gata No.	Particulars
1	Village Abupur (Partly)	Village Abupur	80, 92, 98, 76, 82, 124/868, 83, 93, 78, 79, 99 To 143 Complete Mauja Total Gata-55 Total Area- 52.667 Hect,	Situated in the side of North-East
2	Village Sarna Muradnagar (Partly)	Village Sarna	01 To 116, 123, 124, 145 To 195, 206, 208 To 246, 266 To 272, 280 To 292, 294 To 298, 446 To 476, 839 To 861, 864 To 870, 872 To 885, 887, 888, 890 To 908, 910, 915, 921 To 930, 1066 To 1077, 1085 To 1095, 1101 To 1105, 1422 To 1429, 1431 To 1433, 1435 To 1453, 1455 To 1459, 1533 To 1562 Complete Mauja Total Gata- 435 Total Area- 175.587 Hect,	Situated in the side of North-West
3	Village Shahbisba	Village Shahbisba	01 To 40, 42, 41/1, 41/2, 42, 43, 44मि०, 45 To 78, 78/1, 79 To 210, 211/1, 211/2, 212 To 216 Complete Mauja Total Gata- 216 Total Area- 84.023 Hect,	Situated in the side of West-South
4	Village Jalalpur, Raghunathpur	Village Jalalpur, Raghunathpur	01 To 09, 10-1, 10-2, 11 To 37, 38-1, 38-2, 39 To 69, 70-1, 71 To 109, 110/1, 111 To 156, 157-1, 157-2, 158 To 222, 223-1मि०, 223-2मि०, 224 To 262, 263-1, 263-2, 264 To 280, 285 To 296, 297मि०, 297मि०, 298 To 323, 324मि०, 325, To 346, Complete Mauja Total Gata- 346 Total Area- 136.636 Hect,	Situated in the side of West-South
5	Village Asalatnagar	Village Asalatnagar	01 To 03, 05 To 25, 26/1, 27 To 48, 49-क, 49-ख, 49-ग, 50-ग, 51 To 71, 72/1, 73/1, 73/2, 74, 75, 76मि०, 77 To 83, 85 To 105, 106/2, 107 To 121, 122-122मि०, 123 To 131, 133 To 138, 139क, 139ख 140 To 143, 144/1, 144/2, 145 To 169, 171 To 194, 195कख, 196 To 203, 204कख, 205 To	Situated in the side of South

Sl. No.	Name of Gram Panchayat/Area in Hectare	Revenue village covered in Gram Panchayat	Total Gata No.	Particulars
			214, 216 To 237, 238/1, 238/2, 239 To 247, 248क, 248ख, 249, 250 To 256, 258क, 258ख, 259, 260क, 260ख, 261 To 265, 266क, 266ख, 267क, 267ख, 268 To 271, 272/1, 272/2, 272/3, 273 To 280, 281कखग, 282, 283, 284, 285, 286क, 286ख, 286ग, 286घ, 286ङ, 286च, 287 To 292, 294 क, 295 To 314, 315क, 315ख, 316 To 344, 137/345, 95/346क, 95/346ख, 95/346ग, 89/348, 190/349, 901/350, 95/351 Complete Mauja Total Gata- 364 Total Area- 220.4369 Hect,	
6	Village Mohammadpur Dedha(Partly)	Village Mohammadpur Dedha	35/1, 36, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42/23, 43, 44, 45, 46/2, 47 To 52, 68, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102फि, 103, 126, 128, 129, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Total Gata- 57 Total Area- 13.151 Hect,	Situated in the side of South

SCHEDULE-2

Territorial area of Municipal Council. Muradnagar District Ghaziabad after including the area specified in Schedule-I:-

Proposed Territory-

1. Village Abbupur (Partly)-80, 92, 98, 76, 82, 124/868, 83, 93, 78, 79, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

Total Gata No-55

Total Area - 52.667 Hect.

2. Village Sarna (Partly) Muradnagar-1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,

848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 915, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 1066, 1067, 1068, 1069, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1431, 1432, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562

Total Gata No-435

Total Area -175.587 Hect.

3. Village Shahbiswa-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 41/1, 41/2, 42, 43, 44मि०, 44मि०, 44मि०, 44मि०, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78/1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216

Total Gata No-216

Total Area -84.023 Hect.

4. Village Jalalpur, Raghunathpur-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-1, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38-1, 38-2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70-1, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157-1, 157-2, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223-1मि०, 223-2मि०, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263-1, 263-2, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297मि०, 297मि०, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324मि०, 324मि०, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346

Total Gata No-346

Total Area -136.636 Hect.

5. Village Asalatnagar-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49-क, 49-ख, 49-ग, 50-ग, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 73/1, 73/2, 74, 75, 76मि०, 76मि०, पश्चि०, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122-122मि०, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139क, 139ख 140,

141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195कख, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204कख, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248क, 248ख 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258क प, 258ख, 259, 260क, 260ख, 261, 262, 263, 264, 265, 266क ख, 267क ख, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 272/3, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281कखग, 282, 283, 284, 285, 286क, 286ख, 286ग, 286घ, 286ङ, 286च, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294 क, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315क, 315ख, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 137/345, 95/346क, 95/346ख, 95/346ग, 89/348, 190/349, 901/350, 95/351

Total Gata No-364

Total Area -220.4369 Hect.

6. Village Mohammadpur Dedha-35/1, 36, 37/1, 38, 39, 40, 41, 42/23, 43, 44, 45, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 68, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102फि, 103, 126, 128, 129, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Total Gata No-57

Total Area – 13.151

Existing Territory-

In East (Khasara) plot no. 538, 533, 535, 528, 527, 471, & 468 of village Sarna, Muradnagar with khasara no. 17 of village Abupur alongwith Gang Nahar (canal) with direction north-west, (Khasara) plot no. 18, 20, 21, 28, 29, 44, 84/887, 84, 86, 87, 89, 93, 95, 117, 118, 119, 127, 128, 129, 137, 138, 139, 141, & 146 of village Sarna muradnagar to be taken Bhagirathi water supply head regulator alongwith boundary (limit) of village Shahjadpur from chakroad Sarna and Shahjadpur boundary to west direction (khasara) plot no. 18, 19, 23, 24, 25, 26 27, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 840/1912, 840, 841, 845, 844, 848, 849, 850, 851, 857, 855, 853, 852, 1072, 1073, 1074, 1088, 1089, 1094, 1095, 1414, 1415, 1416, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1478, & 1479 of village Sarna muradnagar to be taken and after crossing way to Kakda alongwith boundary (limit) of village Sarna and Ajabpur Mangawali and after crossing Rawli (Bagpat) road way to village Hussainpur alongwith boundary of village Jalalpur then after crossing nala (sewerage) in south direction behind (in west of village Sahbiswa) (khasara) plot no. 21, 22, 23, 24, 37, 38, 40, 60, 69, 70, 71, 72, 136, 195 of village sahbiswa then in the west of village Jalalpur alongwith boundary of village Jalalpur Raghunathpur and Shobhapur in west direction (khasara) plot no. 4, 52, 53, 60, 59, 65, 69, 70, 72, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 179, 185, 186, 187, 211, 252, & 215 of village Asalatnagar to be taken then after crossing Kaushalya Minor (Small Canal) alongwith way of Basantpur Sainitali from south of east direction after crossing

need no. NH-58 than taken (khasara) plot no. 278, 279, 280, 289, 291, 351, 304, 305, 312, 313, 324, 325, 342, 343, & 344 of village Asalatnagar alongwith railway line to railway station Muradnagar after crossing Ordinance Factory road in east direction after taken (khasara) plot no. 142, 143, 154, 155, 159, 160 of village Mohammadpur Dheda exceeding with railway line to railway station Muradnagar then after crossing village Ujeda minor (small canal) alongwith railway line to old Ukharsi road after crossing in direction of iron bridge of Gang nahar to north-east direction then after crossing NH-58 to the boundary (limit) point of village Abupur total area to be taken within the limit (boundary) of Nagar Palika Parishad, Muradnagar is necessary in public interest because there are signs of urbanization in this area.

Extended boundaries of Municipal Council Muradnagar, district Ghaziabad

East- Gata number of boundary Village Abbupur (Partly)–95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 102, 104, 118, 116, 126, 127, 130, 135, 136, 140, 139, 142, 141

West- Gata number of boundary of Village Sarna (Partly) Muradnagar–261, 269, 268, 100, 104, 105, 69, 36, 37, 35, 34, 38, 10, 11, 12, 22, 28, 24, 25, 26, 27, 146, 145, 142, 143, 840, 841, 844, 845, 846, 847, 848, 868, 860, 861, 859, 854, 853, 852, 851, 850, 549, 880, 862, 1018, 1019, 1496, 1495, 1494, 1452, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492

North- Gata number of boundary of Village Jalalpur, Raghunathpur- 161, 162, 213, 212, 215, 214, 252, 260, 261, 262, 285, 286, 288, 310, 311, 312, 313

South- Gata number of boundary of Village Sahbisva Village Asalat Nagar And Mohammadpur Dedha- 141, 142, 143, 1, 2, 4, 52, 53, 54, 60, 61, 65, 68, 70, 72, 160, 167, 171, 172, 173, 174, 185, 186, 187, 211, 212, 215, 217, 210, 211, 228, 330, 314, 335, 336, 344, 343, 324, 312, 313, 305, 304, 291/351, 291, 250, 256, 279, 278, 160, 159, 154, 155, 152, 153

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.